

बेपोर की उरु परंपरा

हाल ही में ज़िला पर्यटन संवर्धन परिषद, कोझिकोड ने प्रसिद्ध बेपोर उरु (नाव) के लिये [भौगोलिक संकेतक](#) (GI टैग) की मांग की है।

- बेपोर के उरु केरल और [खाड़ी देशों](#) के साथ मैत्रीपूर्ण व्यापारिक संबंधों का प्रतीक है।



बेपोर के उरु:

- **परिचय:**
 - बेपोर के उरु, केरल में कुशल कारीगरों और बढई द्वारा दस्तकारी की गई एक लकड़ी से बनी एक ढो (जहाज़ / नौकायन नाव / नौकायन पोत) है।
 - बेपोर के उरु बेहतरीन कसिम की लकड़ी से बने होते हैं और वह भी किसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किये बिना।
 - उरु को बनाने के लिये उपयोग की जाने वाली लकड़ी की कटाई अभी भी पारंपरिक तरीके से की जाती है जिसके लिये विशेष कुशलता और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
 - प्रत्येक उरु को बनाने में 1-4 वर्ष का समय लगता है और इसे हाथों से बनाया जाता है।
 - इस पारंपरिक हस्तकला का इतिहास 2000 वर्षों पुराना है जो आज भी चलन में है।
- **उरु-निर्माण में शामिल समुदाय:**
 - उरु-निर्माण से जुड़े प्रमुख लोग ओडायी और खलासी (Odayis and Khalasis) हैं।
 - **ओडायी :**
 - वे जहाज़ निर्माण के तकनीकी पक्षों का प्रबंधन करते हैं।
 - उनके परिवार का नाम ओडम से प्रेरित है (एक प्रकार का छोटा जहाज़ जैसा पहले मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच व्यापार में उपयोग किया जाता था)।
 - **खलासी:**
 - उन्हें मप्पला खलासी भी कहा जाता है क्योंकि उनमें से अधिकांश [मप्पला मुसलमान](#) हैं।
 - वे केवल पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके पूरे उरुस को जल में लॉन्च करने के अपने कौशल और विशेषज्ञता के लिये विश्व प्रसिद्ध हैं।
 - खलासी को जहाज़ निर्माण उद्योग में अग्रणी माना जाता है, वे इन जहाज़ों के पहले प्रमुख संरक्षकों में से थे, साथ ही अरब व्यापारी विशेष रूप से उनके प्रति आसक्त थे।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. निम्नलिखित में से कसि 'भौगोलिक संकेत' का दर्जा प्रदान कया गया है? (2015)

1. बनारस के जरी वस्त्र एवं साड़ी
2. राजस्थानी दाल-बाटी-चूरमा

3. तरिपतलिङ्ङु

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: C

व्याख्या:

- भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication) का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिये किया जाता है, जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है।
- दार्जलिगि चाय जीआई टैग पाने वाला भारत का पहला उत्पाद था।
- बनारस जरी वस्त्र और साड़ी एवं तरिपतलिङ्ङु को जीआई टैग मिला है जबकि राजस्थान की दाल-बाटी-चूरमा को नहीं। अतः कथन 1 और 3 सही हैं।

अतः विकल्प (C) सही है।

प्रश्न: भारत ने वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक(पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 को किसके दायित्वों का पालन करने के लिये अधिनियमिति किया? (2018)

- (a) अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन
- (b) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
- (c) व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
- (d) विश्व व्यापार संगठन

उत्तर:(d)

व्याख्या:

- भौगोलिक संकेत (GI) एक प्रकार की बौद्धिक संपदा (IP) हैं। विश्व व्यापार संगठन (WTO), बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलू (TRIPS)के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों को मान्यता देता है।
- TRIPS समझौते के अनुच्छेद 22(1) के तहत जीआई टैग ऐसे कृषि, प्राकृतिक या एक निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है, जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होता है और जिसके कारण इसमें अद्वितीय विशेषताओं और गुणों का समावेश होता है।

अतः विकल्प (d) सही है।

[स्रोत : द हिंदू](#)